



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 1982/आश्विन 20, 1904

No. 465]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 1982/ASVINA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1982

का०अ० 729(अ)---केन्द्रीय सरकार, सड़क-निर्माण अधिनियम, 1960 (1960 वा 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना करती है कि—

(क) 'वर्षा खाद्य दिवस' के सम्मरण में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्के भी केन्द्रीय सरकार के प्रावधानाधीन जारी किये जाने के लिये एकमात्र में बनाये जायेंगे, अर्थात्—

(1) बीस पैसे

(2) दस पैसे

(ख) उपरोक्त प्रत्येक मूल्य के सिक्के निम्नलिखित आभाष, उदाहरणों और संरचना के अन्तर्गत होंगे, अर्थात्—

सिक्के का अंकित मूल्य	आभाष और उदाहरण	धातु संरचना
बीस पैसे	पञ्चांगीय 26 मिमी. व्यास किनारे के आकार 21.5 मिमी.मीटर समतल के आकार	एलु.मानक-मैग्नीशियम मैग्नीशियम 3.5% से 4% शेष एलुमिनियम
दस पैसे	अर्द्ध वृत्ताकार (8 अर्द्ध-वृत्त) 23 मिमी.मीटर आकार (अर्द्ध-वृत्त)	एलुमिनियम-मैग्नीशियम मैग्नीशियम 3.5% से 4% शेष एलुमिनियम

डिजाइन :

20 पैसे

मुख्य भाग : सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह गुम्बज अंकित होगा, जिसके बायें ऊपरी भाग में "भारत शब्द" और दायें ऊपरी भाग में "India" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "20" अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "पैसे" शब्द और दायें निचले भाग में "Paise" शब्द लिखा होगा।

पृष्ठ भाग : सिक्के के इस भाग पर "World Food Day" शब्द वाक्य लिखा होगा। 'ग्लोब' का एक सप्रतीक होगा जिसके बीच 'अनाज की एक बोली' होगा और ग्लोब बायें और दायें किनारे के बीच दो हथेलियों पर रखा गया होगा तथा ग्लोब के चारों ओर कुछ उल्लासपूर्ण दर्शायी जायेंगी। संक्षेपशः 'FAO' ग्लोब के ऊपरी भाग में लिखा जायेगा और अग्रभाग में तालपत्र, तीन भागों में बाँटकर '16' 'अक्टूबर' '1982' ग्लोब के नीचे अंकित की जायेंगी। 'वर्षा खाद्य दिवस' बायें भाग में और 'World Food Day' दायें भाग में लिखा जायेगा।

10 पैसे

मुख्य भाग : सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह गुम्बज अंकित होगा जिसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "India" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "10" अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "पैसे" शब्द और दायें निचले भाग में "Paise" शब्द लिखा होगा।

नूतन रूप : इसके के इस भाग पर "World Food Day" सार काय लिखा होगा । "ग्लोब" का एक संप्रतीक होगा जिसके बीच "भनाज की एक बाली" होगी और ग्लोब बायें और बायें फीकी दो हथेलियों पर रखा गया होगा तथा ग्लोब के चारों ओर कुछ चमकती चमकती, जलवायु, जलवायु । संक्षेपित "FAO" ग्लोब के ऊपर, भाग में दिखाया जायेगा जो मध्यभाग में लकीर तीनों भागों में बंटाकर "16" "OCT" "1982" ग्लोब के नीचे संक्षेपित की जायेगी । "विश्व खाद्य दिवस" बायें भाग में और "World Food Day" बायें भाग में, दिखाया जायेगा ।

[सं० एक० 1/13(II)/82-सिक्का]

सी०जी० पथरोज, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi the, 7th October, 1982

S.O.729(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of the World Food Day namely —

(i) Twenty Paise,

(ii) Ten Paise;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, design and composition, namely:

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Metal composition
Twenty Paise	Hexagonal 26 millimetre across corners	Aluminium— Magnesium 3.5% to 4%.
Ten Paise	24.5 millimetre across flats Scalloped (8 scallops) 23 millimetre across scallops	Aluminium remainder Aluminium Magnesium 3.5% to 4%. Aluminium remainder

Designs:

Twenty Paise:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "20" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse: This face of the coin shall have the theme "WORLD FOOD DAY". In the foreground, symbols of a "globe" with an "ear of corns" in the centre of the globe held on two palms stretched on the left and right sides with some art work around the globe shall be shown. The abbreviation "FAO" shall be shown on the upper portion of the globe and the date split into three parts "16" "OCT" "1982" shall be inscribed below the globe in the foreground. The inscription "विश्व खाद्य दिवस" shall be shown on the left periphery and the inscription "WORLD FOOD DAY" on the right periphery.

Ten Paise:

Obverse: This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "10" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse: This face of the coin shall have the theme "WORLD FOOD DAY". In the foreground symbols of a "globe" with an "ear of corns" in the centre of the globe held on two palms stretched on left and right sides with some art work around the globe shall be shown. The abbreviation "FAO" shall be shown on the upper portion of the globe and the date split into three parts "16" "OCT" "1982" shall be inscribed below the globe in the foreground. The inscription "विश्व खाद्य दिवस" shall be shown on the left periphery and the inscription "WORLD FOOD DAY" on the right periphery.

[No.F.1/13(II)/82—Coin.]

C.G. PATHROSE. Under Secy.